



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2019/पौष 14, 1940
No. 41] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2019/PAUSHA 14, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2019

का.आ. 45(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के खंड (ड.) के उप खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित पदार्थों को सम्मिलित करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“सामान्य नाम बायएक्साफेन	सीएस/सीएसआरएन सं. 581809-46-3	आईयूपीएसी/ संक्षिप्त रासायनिक नाम एन-(3',4'-डायक्लोरो-5-फ्लूरोबायफिनाइल- 2-येल)-3 (डायफ्लूरोमिथाइल)- 1-मिथाइल - 1 एच- पायराजोल-4-क्वाबोक्सामाइड।
फ्लोजेंडोलायजाइन	1254304-22-7	8-क्लोरो-एन-[(2-क्लोरो-5-मीथोक्सीफिनाइल सल्फोनाइल] -6-(ट्रायफ्लूरोमिथाइल) ईमाडाजो [1,2- α] पायराइडाइन-2- कार्बोक्सामाइड
फ्लूइंडापायर (न्यू फंजीसाइड्स)	1383809-87-7	3-(डायफ्लूरोमिथाइल)-एन-[(3आरएस)-7- फ्लूरो-2,3 -डायहाइड्रो-1, 1, 3-ट्रायमिथाइल

टोलपायरलेट	1101132-67-5	-1 एच-इंडेन -4 -येल]-1- मिथाइलपाइराजोल-4-कोबोक्सामाइड (आरएस)-1-{1-ईथाइल -4[4-मिसाइल-3-(2मिथोक्सीईथोक्सी)-0-तोलूओएल] पायराजोल-5-येलोक्सी} ईथाइल मिथाइल कार्बोनेट
स्पायरोपायडायोन	1229023-00-0	3-(4-क्लोरो-2,6-डायमिथाइलफिनाइल)-8 मिथोक्सी -1-मिथाइल-2-ऑक्सो-1,8-डायजाएस्पायरो [4.5] डेक-3-एन-4-येल ईथाइल कार्बोनेट
फ्लाक्सामेटामाइड	928783-29-3	4-[(5 आरएस)-5-(3,5-डायक्लोरोफिनाइल)-4,5-डायहाइड्रो-5-(ट्रायफ्लोरोमिथाइल)-1,2-ऑक्साजोल-3-यल]-एन{(ईजेड) (मिथोक्सीइमीनो) मिथाइल}-ओ-तोलूआमाइड [एन (ई)]-एन-[1-(6-क्लोरो-3 पायरायडायनाइल) मिथाइल] -2 (1एच)- पायरायडायनाइलाइडेन] -2,2,2-ट्रायफ्लोरोएसीटामाइड
डायमेफ्लूथ्रिन	271241-14-6	2, 3, 5, 6-टेट्राफ्लोरो-4-(मिथोक्सीमिथाइल) बेंजाइल (1 आर एस, 3आरएस: 1आरएस, 3 एसआर) -2,2-डायमिथाइल-3-(2-मिथाइलप्रोप-1-ईनाइल) सायक्लोरोप्रोपेन कार्बोक्सीलेट
ईथाबॉक्साम	162650-77-3	(आरएस)-एन-(α -सायनो-2-थिनाइल)-4-ईथाइल-2(ईथाइलामाइनो) -1,3-थायजोल-5-कार्बोक्सामाइड
पायराजॉक्सीफेन	सीएसएस आरएन 71561-11-0	2[4-(2,4-डायक्लोरोबेंजोयल)-1,3 डायमिथाइलपायराजोल -5-येलोक्सी]एसीटोफिनोन
डायक्लोरमिड	37764-25-3	एन, एन-डायली-2,2-डायक्लोरोएसीटामाइड सोडियम 2-{2-क्लोरो-3-[2-(1, 3-डायक्सोलेन -2-जायल) ईथोक्सी]-4-मिसाइलबेंजोयल]-3-ऑक्सीसायक्लोहैक्स-1-एन-1-ओलेट
लेंकोट्रायबन सोडियम	1486617-22-4	5-(1,3,-डायक्सेन-2-जाइल)-4[4(ट्रायफ्लोरोमिथाइल)बेंजाइलोक्सिल पायरामाइडायिन”
बैन्सपायरिमोक्सेन	1449021-97-9	

[फा. सं. 13035/19/2015-पीपी-1(भाग. ii)]

डॉ. बी. राजेंद्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मुख्य अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. 9(अ), तारीख 9 जनवरी, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई :-

1. सा.का.नि. 823(अ), तारीख 28 सितंबर, 1976
2. सा.का.नि. 200(अ), तारीख 29 मार्च, 1978
3. सा.का.नि. 574(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 1979
4. सा.का.नि. 32(अ), तारीख 12 फरवरी, 1980
5. सा.का.नि. 501(अ), तारीख 17 जुलाई, 1982
6. सा.का.नि. 500(अ), तारीख 18 जून, 1985
7. सा.का.नि. 839(अ), तारीख 14 नवंबर, 1985
8. सा.का.नि. 31(अ), तारीख 15 जनवरी, 1987
9. सा.का.नि. 511(अ), तारीख 22 मई, 1987
10. सा.का.नि. 858(अ), तारीख 12 अगस्त, 1988
11. सा.का.नि. 13(अ), तारीख 5 जनवरी, 1990
12. सा.का.नि. 987(अ), तारीख 20 दिसंबर, 1990
13. सा.का.नि. 576(अ), तारीख 26 अगस्त, 1993
14. सा.का.नि. 577(अ), तारीख 26 अगस्त, 1993
15. सा.का.नि. 730(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 1995
16. सा.का.नि. 10(अ), तारीख 3 जनवरी, 1996
17. सा.का.नि. 538(अ), तारीख 21 नवंबर, 1996
18. सा.का.नि. 621(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 1997
19. सा.का.नि. 224(अ), तारीख 26 मार्च, 1999
20. सा.का.नि. 672(अ), तारीख 28 सितंबर, 1999
21. सा.का.नि. 868(अ), तारीख 15 नवंबर, 2000
22. सा.का.नि. 69(अ), तारीख 5 फरवरी, 2001
23. सा.का.नि. 181(अ), तारीख 13 मार्च, 2001
24. सा.का.नि. 291(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2002
25. सा.का.नि. 772(अ), तारीख 18 नवंबर, 2002
26. सा.का.नि. 523(अ), तारीख 3 जुलाई, 2003
27. सा.का.नि. 378(अ), तारीख 24 जून, 2004
28. सा.का.नि. 744(अ), तारीख 16 नवंबर, 2004
29. सा.का.नि. 198(अ), तारीख 31 मार्च, 2005
30. सा.का.नि. 651(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2005

31. सा.का.नि. 51(अ), तारीख 6 फरवरी, 2006
32. सा.का.नि. 683(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2006
33. सा.का.नि. 631(अ), तारीख 28 सितंबर, 2007
34. सा.का.नि. 650(अ), तारीख 11 सितंबर, 2008
35. सा.का.नि. 799(अ), तारीख 19 नवंबर, 2008
36. सा.का.नि. 384(अ), तारीख 4 जून, 2009
37. सा.का.नि. 5(अ), तारीख 5 जनवरी, 2010
38. सा.का.नि. 316(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2010
39. सा.का.नि. 764(अ), तारीख 15 सितंबर, 2010
40. सा.का.नि. 400(अ), तारीख 25 मई, 2011
41. सा.का.नि. 908(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2011
42. सा.का.नि. 380(अ), तारीख 24 मई, 2012
43. सा.का.नि. 111(अ), तारीख 20 फरवरी, 2013
44. सा.का.नि. 446(अ), तारीख 28 जून, 2013
45. सा.का.नि. 313(अ), तारीख 6 मई, 2014
46. सा.का.नि. 790(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014
47. का.आ. 3385(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2016 और
48. का.आ. 3304(अ), तारीख 06 अक्टूबर, 2017

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2019

S.O. 45(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticide Board, hereby includes the following substances in the Schedule to the said Act, namely:—

In the said Act, in the Schedule, after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:—

“ Common Name	CAS/CAS RN No.	IUPAC/Chemical Abstract Name
Bixafen	581809-46-3	<i>N</i> -(3',4'-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1 H – pyrazole-4-carboxamide.
Fluazaindolizine	1254304-22-7	8-chloro- <i>N</i> -[(2-chloro-5-methoxyphenyl) sulfonyl] -6- (trifluoromethyl) imadazo [1,2- α] pyridine-2-carboxamide
Fluindapyr (New Fungicide)	1383809-87-7	3-(difluoromethyl)- <i>N</i> -[(3RS)- 7-fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1 H-inden-4-yl]-1 methylpyrazole-4-carboxamide

Tolpyralate	1101132-67-5	(RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazole-5-yloxy} ethyl methyl carbonate
Spiropidion	1229023-00-0	3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro [4.5] dec-3-en-4-yl ethyl carbonate
Fluxametamide	928783-29-3	4-[(5RS)-5-(3,5-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-1,2-oxazole-3-yl]-N-[(EZ)(methoxyimino)methyl]-o-toluamide
Flupyrimin	1689566-03-7	[N(E)]-N-[1-[(6-chloro-3-pyridinyl) methyl] -2(1H)-pyridinylidene] -2,2,2-trifluoroacetamide
Dimefluthrin	271241-14-6	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl) benzyl (1RS,3RS: 1RS, 3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropane carboxylate
Ethaboxam	162650-77-3	(RS)-N-(α -cyano-2-thenyl)-4-ethyl-2-(ethylamino)-1,3-thiazole-5-carboxamide.
Pyrazoxyfen	CAS RN 71561-11-0	2[4-(2,4-dichlorobenzoyl)-1,3 dimethylpyrazole-5-yloxy] acetophenone
Dichlormid	37764-25-3	N,N-diallyl-2,2-dichloroacetamide
Lancotrione Sodium	1486617-22-4	Sodium 2-{2-chloro-3-[2-(1,3-dioxolan-2-yl) ethoxy]-4-mesylbenzoyl}-3-oxycyclohex-1-en-1-olate
Benzpyrimoxan	1449021-97-9	5-(1,3-dioxan-2-yl)-4-[4-(trifluoromethyl) benzyloxy] pyrimidine "

[F. No. 13035/19/2015-PP-I (vol.ii)]

Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 9(E), dated the 9th January, 1974 and subsequently amended *vide* the following:-

1. G.S.R. 823(E), dated the 28th September, 1976,
2. G.S.R. 200(E), dated the 29th March, 1978,
3. G.S.R. 574(E), dated the 6th October, 1979,
4. G.S.R. 32(E), dated the 12th February, 1980,
5. G.S.R. 501(E), dated the 17th July, 1982,
6. G.S.R. 500(E), dated the 18th June, 1985,
7. G.S.R. 839(E), dated the 14th November, 1985,
8. G.S.R. 31(E), dated the 15th January, 1987,
9. G.S.R. 511(E), dated the 22nd May, 1987,
10. G.S.R. 858(E), dated the 12th August, 1988,
11. G.S.R. 13(E), dated the 5th January, 1990,
12. G.S.R. 987(E), dated the 20th December, 1990,
13. G.S.R. 576(E), dated the 26th August, 1993,
14. G.S.R. 577(E), dated the 26th August, 1993,
15. G.S.R. 730(E), dated the 30th October, 1995,
16. G.S.R. 10(E), dated the 3rd January, 1996,
17. G.S.R. 538(E), dated the 21st November, 1996,
18. G.S.R. 621(E), dated the 27th October, 1997,

19. G.S.R. 224(E), dated the 26th March, 1999,
20. G.S.R. 672(E), dated the 28th September, 1999,
21. G.S.R. 868(E), dated the 15th November, 2000,
22. G.S.R. 69(E), dated the 5th February, 2001,
23. G.S.R. 181(E), dated the 13th March, 2001,
24. G.S.R. 291(E), dated the 19th April, 2002,
25. G.S.R. 772(E), dated the 18th November, 2002,
26. G.S.R. 523(E), dated the 3rd July, 2003,
27. G.S.R. 378(E), dated the 24th June, 2004,
28. G.S.R. 744(E), dated the 16th November, 2004,
29. G.S.R. 198(E), dated the 31st March, 2005,
30. G.S.R. 651(E), dated the 31st October, 2005,
31. G.S.R. 51(E), dated the 6th February, 2006,
32. G.S.R. 683(E), dated the 31st October, 2006,
33. G.S.R. 631(E), dated the 28th September, 2007,
34. G.S.R. 650(E), dated the 11th September, 2008,
35. G.S.R. 799(E), dated the 19th November, 2008,
36. G.S.R. 384(E), dated the 4th June, 2009,
37. G.S.R. 5(E), dated the 5th January, 2010,
38. G.S.R. 316(E), dated the 13th April, 2010,
39. G.S.R. 764(E), dated the 15th September, 2010,
40. G.S.R. 400(E), dated the 25th May, 2011 ,
41. G.S.R. 908(E), dated the 29th December, 2011,
42. G.S.R. 380 (E), dated the 24th May, 2012,
43. G.S.R. 111 (E), dated the 20th February, 2013 ,
44. G.S.R. 446 (E), dated the 28th June, 2013,
45. G.S.R. 313(E), dated the 6th May, 2014,
46. G.S.R. 790 (E), dated the 11th November, 2014,
47. S.O. 3385(E), dated 27th October, 2016, and
48. S.O. 3304(E), dated 6th October, 2017